

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई 2018—श्रावण 9, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

अधि. क्र. 24-एफ-1-3-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद्, ठीकरी का गठन करती है, अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ग्राम ठीकरी में सर्वे नं. 01 से 834 तक कुल रकबा 1866.859 हेक्टेयर.
2			पिपरी	ग्राम पिपरी के सर्वे नं. 01 से 264 तक कुल रकबा 513.224 हेक्टेयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

अधि. क्र. 24-एफ-1-3-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधि. क्र. 24-एफ-1-3-2018-अठारह-3, दिनांक 31 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 31st July 2018

Notice No. 24-F-1-3-2018-XVIII-3.—In exercise of the powers, conferred by Section 5 (1) (B) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the areas Village Panchayat Theekri and Pipri mentioned in the below Table is notified as Municipal Council Theekri, namely :—

TABLE

Sr. No.	District	Tehsil	Name of the Village Panchayat	Areas Included/detail of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Barwani	Theekri	Theekri	Village Theekri in the survey No. 01 to 834 total rakwa 1866.859 hectare.
2			Pipri	Village Pipri in the survey No. 01 to 264 total rakwa 513.224 hectare.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.